



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 595 राँची, बुधवार

13 जून, 2018 (ई०)

---

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

-----  
संकल्प

13 जून, 2018

**विषय:-** भूमि का सीमांकन/मापी हेतु अमीन के पारिश्रमिक राशि-1000/- (एक हजार) रुपये निर्धारित किये जाने के संबंध में ।

संख्या- 6/अमीन फीस निर्धारण-16/2018-2474,-- मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची का गै.स.प्रे.सं.-2442, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में एन०आई०सी० द्वारा jharbhoomi portal में भूमि की सीमांकन/मापी हेतु आवेदन तथा सीमांकन हेतु अमीन फीस/शुल्क की राशि ऑन-लाईन भुगतान करने संबंधी लिये गये निर्णय को सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है ।

2. भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के संकल्प सं०-64, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों के अंतर्गत अधिकार का अभिलेख तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में लगे उजरत भोगी कर्मियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर 310/- (तीन सौ दस) रुपये का भुगतान कर कार्य संपन्न कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त है ।
3. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अंचलों में सरकारी अमीन, उजरत भोगी अमीन तथा बाह्य स्रोतों से रखे गये अमीनों से मापी/सीमांकन का कार्य कराया जाता है । भूमि सीमांकन/मापी हेतु अमीन फीस/पारिश्रमिक की राशि प्रति मापी दिवस के हिसाब से भुगतान की जाती है । सरकारी अमीन द्वारा भूमि की मापी किये जाने पर अमीन का औसत एक दिन के वेतन के हिसाब से मापी में लगे दिनों से मापी फीस/शुल्क की गणना की जाती है । वहीं, उजरत भोगी अमीन से मापी/सीमांकन कराये जाने की स्थिति में उजरत भोगी अमीन को दैनिक मजदूरी के आधार पर मापी/सीमांकन में लगे दिनों के हिसाब से अमीन फीस/पारिश्रमिक का भुगतान रैयतों को करना पड़ता है । राज्य के विभिन्न जिलों में अमीन फीस में एकरूपता नहीं रहने के कारण रैयतों में मापी फीस को लेकर असमंजस एवं असंतोष बना रहता है ।
4. झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अंचलों के सभी अमीन/उजरत भोगी अमीनों तथा बाह्य स्रोतों के अमीनों द्वारा सीमांकन/मापी हेतु भुगतान की जाने वाली मापी फीस/शुल्क की असमानता को दूर कर एकसमान/समरूप अमीन फीस/शुल्क भुगतान की आवश्यकता है ।
5. अमीनों की पारिश्रमिक 1500/- मो० (एक हजार पाँच सौ) रुपये किये जाने के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग, राँची द्वारा अमीनों की पारिश्रमिक मो० 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने का परामर्श दिया गया है ।
6. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 5 जून, 2018 के मद सं०-4 में लिये गये निर्णय के आलोक में पूरे झारखण्ड राज्य में भूमि की मापी हेतु एक समान अमीन फीस 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन के हिसाब से सरकारी खजाने/अंचल नजारत में ऑन-लाईन जमा कराते हुए भूमि की मापी/सीमांकन किया जा सकेगा तथा उक्त मापी फीस की निर्धारित राशि 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिदिन व प्रत्येक 2 (दो) वर्षों के अंतराल पर उसमें 10% की दर से वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान किया जाएगा ताकि बार-बार प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं पड़े ।

अमीन फीस/मापी फीस का भुगतान/आवेदक/आवेदकों द्वारा ऑन-लाईन किया जायगा ।

ह०/-

उदय प्रताप,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----